



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1933 (श0)
(सं0 पटना 667) पटना, बृहस्पतिवार, 17 नवम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

1 जून 2011

सं0 22/नि0सि0(सिवान)-11-04/2010/641—श्री पारस नाथ राय, अवर प्रमंडल पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सारण नहर अवर प्रमंडल, गुठनी को अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करना, अनुशासनहीनता बरतना एवं अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित रूप से पटवन नहीं कराने आदि आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 738, दिनांक 7 मई 2010 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1297, दिनांक 3 सितम्बर 2010 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरान्त श्री राय को निन्दन की सजा देते हुए “भविष्य के लिये सतर्क रहने” को तथा निलंबन से मुक्त करने एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह-भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन प्रदायगी के लिये यह अवधि कर्तव्य पर मानी जायेगी का निर्णय लिया गया।

अतएव श्री राय को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया गया है:-

1. निन्दन वर्ष 2009-2010
2. भविष्य के लिए सतर्क किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह-भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन प्रदायगी के लिए यह अवधि कर्तव्य पर मानी जायेगी।
अतएव एतद् द्वारा श्री राय को उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 667-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>